



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साअधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT
ORDER**

Jaipur, September 6, 2019

F.10 (Elec) LSG/19/8937 :-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Council Rajsamand has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Council Rajsamand. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

By Order,

Ujjwal Rathore,

Joint Secretary to Government

कार्यालय नगर परिषद राजसमन्द जिला राजसमन्द

प्रोफार्मा "क"

| क्र.सं. | वार्ड संख्या | सीमांकन का विवरण | जनसंख्या |
|---------|--------------|--|----------|
| 01 | 01 | सनवाड मे भील मगरी मे नारायण जी भील के मकान के सामने पानी की टंकी से शुरू होकर दक्षिण की ओर चलकर बंशीलाल के मकान (भील मगरी) को लेते हुए सलीम मोहम्मद के मकान तक। वहां से पश्चिम मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए आमज माता जी मन्दिर तक। यहा से दक्षिण मे मुडकर सिढिया उतरकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए हनुमन्तसिंह जी के मकान को लेते हुए मोतीसिंह जी के मकान तक। वहा से पश्चिम मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए लक्षमण जी सेन के मकान को लेते हुए खुशहाल जी भील के मकान तक। वहा से दक्षिण मे मुडकर भेरूलाल जी कुमावत के मकान को लेते हुए बडलीवाले भेरूजी मंदिर को लेते हुए गोपीलाल जी गुर्जर के मकान तक। यहा से सनवाड मेन रोड रोड पूर्व की ओर मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए जोधपुरी बावडी को लेते हुए एन एच 08 सनवाड चौराहे तक। यहां से उत्तर की ओर मुडकर धुनी रेस्टोरेन्ट को लेकर सम्पत सागर मकान को लेते हुए महाराजा गेस्ट हाउस को लेते हुए बापू ग्रेनाईट | 1381 |

| | | | |
|----|----|--|------|
| | | (ठाकुर भवन के सामने) पुराने चुंगी नाका तक। यहां से दक्षिण पश्चिम में मुड़कर मगरी मगरी होते हुए पुनः नारायण जी भील के मकान के सामने पानी की टंकी तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | |
| 02 | 02 | धोली खान आबादी को लेते हुए दक्षिण की ओर चलते हुए नगर परिषद की सीमा सीमा होते हुए स्वरूप सागर के पास की आबादी को लेते हुए मुंडोल जाने वाले रोड को क्रॉस कर लखारों का बन्दा की आबादी को लेते हुए नहर तक। यहां से नहर नहर होते हुए बायीं तरफ की आबादी लेते हुए नगरपरिषद के कचरा स्टेण्ड की दिवार तक। यहां से उत्तर पूर्व मुड़कर कच्चे रास्ते रास्ते एमबीसी भवन को लेते हुए आर टी ओ ट्रेक को लेते हुए आबकारी कार्यालय को लेते हुए आरएसईबी सब ग्रीड स्टेशन व स्कूल को छोड़ते हुए गुडा स्कीम को छोड़ते हुए सोहन जी कुमावत के मकान, गोवर्धन जी कुमावत के मकान को लेते हुए, आर के रोड तक। यहां से रोड क्रॉस कर सीधा आर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में रोड तक। यहां से पूर्व में मुड़कर रोड रोड चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए सनवाड ग्राम सेवा सहकारी समिति को लेते हुए सुरेश जी कुमावत के मकान तक। यहां से उत्तर मुड़कर दयाराम जी के मकान को लेते हुए सवाजी भील के मकान तक। वहां से पूर्व में मुड़कर रास्ते रास्ते बाये हाथ की आबादी लेते हुए निम्बाजी भील के मकान को लेते हुए हनुमन्तसिंह जी के मकान तक। वहां से उत्तर मुड़कर सिढिया चढते हुए आमज माता जी के मंदिर को छोड़ते हुए भेरूजी के मंदिर को लेते हुए शोभाराम भील के मकान तक। वहां से पूर्व में मुड़कर रास्ते रास्ते बाये हाथ की आबादी लेते हुए धनाजी भील के मकान तक। यहां से उत्तर मुड़कर गली गली पहाड पर पानी की टंकी के सामने नारायण जी भील के मकान तक। यहां से पश्चिम में मुड़कर पहाड पहाड होते हुए आंगनवाडी को लेते हुए राजकीय प्राथमिक विद्यालय को लेते हुए दयाराम जी कुमावत का मकान लेते हुए पुनः धोली खान की आबादी तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1396 |
| 03 | 03 | सनवाड में आर. के. स्कूल के पास विरेन्द्र महात्मा जी के खेत व मकान से शुरू होकर दक्षिण पश्चिम चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए आर के रोड क्रॉस कर चुन्नीलाल जी कुमावत के मकान को लेते हुए, रोशन जी कुमावत का मकान लेते हुए, रास्ते रास्ते चल गुडा स्कीम, राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरएसईबी सबग्रीड स्टेशन को लेते हुए कचरा स्टेण्ड तक। कचरा स्टेण्ड को लेते हुए सीधे नहर तक। यहां से दक्षिण पूर्व में मुड़कर नहर नहर चलते हुए | 1370 |

| | | | |
|----|----|---|------|
| | | <p>नवोदय विधालय की दिवार के उत्तरी पश्चिमी कोने तक। यहा से पूर्व मे मुडकर दिवार के सहारे सहारे उत्तरी कोने तक। यहा से दक्षिण पूर्व मे मुडकर दिवार के सहारे सहारे चलते हुए पानी की टंकी को लेते हुए नवोदय विधालय को छोडते हुए राडाजी का मंदिर लेते हुए उंकार जी बन्जारा के मकान को लेते हुए हेन्डपम्प के पास बंशीलाल जी मीणा के मकान को लेते हुए पेमा जी गमेती के मकान तक। यहा से उत्तर पूर्व मे मुडकर सडक सडक बायी तरफ की आबादी जिसमे कच्ची बस्ती गायरीयावास के मकानों को लेते हुए मोहन जी गमेती के मकान लेते हुए बंदीलाल जी माली के मकान तक। यहा से पूर्व मे मुडकर जोगेश्वर (बावजी का मंदिर) लेते हुए शोभालाल जी गाडरी का मकान लेते हुए मोहनजी गाडरी के मकान को लेते हुए हनुमान जी मंदिर वाले चौक तक। यहा से दक्षिण मुडकर रास्ते रास्ते चलते हुए पट्टी गौदाम लेते हुए पीपली के पास एन एच 08 हाईवेतक। यहा से उत्तर मे मुडकर हाईवे हाईवे बाये हाथ की आबादी लेते हुए सनवाड चौराहे तक। यहा से पश्चिम मे मुडकर बाये तरफ की आबादी लेते हुए कुमावत समाज के नोहरे को लेते हुए विरेन्द्र जी महात्मा के खेत व मकान तक। इसके बीच की समस्त आबदी</p> | |
| 04 | 04 | <p>नवोदय विद्यालय के उत्तरी कोने से शुरू होकर नवोदय विधालय की दिवार के सहारे सहारे दक्षिण पश्चिम दिशा मे चलते हुए नवोदय विद्यालय को लेते हुए नहर तक। यहा से नहर नहर चलते हुए नगरपरिषद सीमा तक। यहा से दक्षिण पूर्व मे मुडकर नगरपरिषद सीमा सीमा चलते हुए आरटीओ कार्यालय को लेते हुए देवथडी तिराहे पर प्रदीप जी बगाली (डाक्टर) के मकान को लेते हुए रोड रोड सीधा अमृत लाल जी पालीवाल के मकान को लेते हुए, बाल कारागृह को लेते हुए नगरपरिषद सीमा के सहारे सहारे मुख्यमंत्री आवास योजना को लेते हुए एनएच 8 पर शनि महाराज के मन्दिर तक। यहा से उत्तर मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए हाईवे हाईवे डायमण्ड मार्बल, चांदी मार्बल को लेते हुए राजकीय पोलिटेक्निक कोलेज को लेते हुए, पुलिस लाईन, राजकीय महाविद्यालय को लेते हुए देवथडी चौराहे को लेते हुए, सुन्दरचा चौराहे को लेते हुए तृतीय गायरीयावास मे हाईवे किनारे पीपल के पडे तक। यहा से द्वितीय गायरीयावास जाने वाले रास्ते रास्ते गणेशजी गायरी के बाडे को लेते हुए महेश जी जागिंड के वर्कशोप, कैलाश जी कुमावत का मार्बल कटर लेते हुए सीधा हनुमान जी मंदिर वाले चौक तक। यहा से पश्चिम मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए चक्का जी गायरी, नानाजी, रमेशजी,</p> | 1606 |

| | | | |
|----|----|--|------|
| | | के मकान को लेते हुए रोड रोड सीधा भील समाज के भवन तक। यहा से उत्तर पश्चिम मे मुडकर भील समाज के भवन को लेते हुए नवोदय विद्यालय की दिवार दिवार पुनः नवोदय विद्यालय के उत्तरी कोने तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | |
| 05 | 05 | रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास तालेडी से आरम्भ होकर एनएच 08 हाईवे से दक्षिण की ओर चलकर नव भारत मार्बल को लेते हुए आईटीआई को लेते हुए चुंगीनाका पुलिया तक। यहां से उत्तर पूर्व की ओर मुडकर नाथद्वारा कांकरोली रोड रोड बाये हाथ की आबादी लेते हुए सोमनाथ चोराहा होकर धोईन्दा बस स्टेण्ड, श्रीनाथ पेट्रोल पम्प होते हुए श्रीजी इलेक्ट्रॉनिक्स तक। यहा से पश्चिम की ओर कलेक्ट्रेट जाने वाली 100 फीट रोड पर मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए एचडीएफसी बैंक को लेते हुए, एस्सार पेट्रोल पम्प, शहीद स्मारक को लेते हुए 100 फीट रोड से देव हेरिटेज जाने वाले रास्ते तक। यहां से दक्षिण में मुडकर कबूतर खाने को छोडते हुए देव हेरिटेज को लेते हुए धोईन्दा की तरफ जाने वाले मार्ग पर बांयी तरफ की आबादी लेते हुए तालेडी तक। तालेडी से पश्चिम की ओर मुडकर तालेडी तालेडी चलकर रामेश्वर महादेव मंदिर के वहा वटवृक्ष के पास होकर पुनः रिलायंस पेट्रोल पम्प के पास तालेडी एन एच 08 हाईवे तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1493 |
| 06 | 06 | राजनगर नवीन बस स्टेण्ड के दक्षिण तरफ वाले रास्ते के कोने पर बाबू खां जी के मकान से आरम्भ कर बजरंग चौराहा होकर सीधे सीधे तालेडी पुलिया तक। यहां से पूरब में मुडकर तालेडी तालेडी चलते हुए सुरेन्द्र जी बडौला के मकान को लेकर तालेडी के उत्तर तरफ की आबादी लेते हुए सीधे धोईन्दा राजनगर नई रोड तक। यहा से उत्तर पश्चिम में मुडकर देव हेरिटेज को छोडते हुए रास्ते रास्ते 100 फीट रोड तक। यहां से पश्चिम मे मुडकर वीएनआर ओटोमोबाईल्स (अम्बेडकर सर्किल से पहले) के सामने वाले रास्ते तक । यहा से रोड क्रोस कर उत्तर की ओर तीर्थराज जी तेली के मकान के सामने खाली भूमि से आरम्भ कर बायी तरफ की आबादी को लेते हुए मनोज जी आमेटा के मकान तक। यहां से खेत क्रोस कर रास्ते तक। यहा से पश्चिम में मुडकर माणक चौक तक। यहा से उत्तर मुडकर नायकवाडी रोड रोड सीधे मांगीलाल जी ढोली के मकान तक। यहां से पश्चिम मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए सेन कोलोनी, सनराईज पब्लिक सैकण्ड्री स्कुल को लेकर तेली समाज भवन, भिक्षु निलयम को लेते हुए पुनः बाबू खां जी के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1643 |

| | | | |
|----|----|--|------|
| 07 | 07 | एनएच08 राजनगर-सनवाड चौराहे के सामने बशीर खां के मकान से शुरू होकर दक्षिण तरफ रास्ते-रास्ते बाये हाथ की आबादी लेते हुए नवीन बस स्टेण्ड राजनगर तक। यहा से बस स्टेण्ड को लेते हुए पूर्व में मुडकर रोड-रोड बायी तरफ की आबादी लेते हुए सीधे नायकवाडी में सलामुद्नि के मकान तक। यहां से उत्तर में मुडकर रोड रोड सीधे दाणी चबूतरा के पास आम रोड तक। यहां से उत्तर पश्चिम में मुडकर सदर बाजार रोड रोड बायी तरफ की आबादी लेते हुए सीधे पुनः एनएच 08 हाईवे पुलिया के नीचे बशीर खां के मकान तक। इसके बीच की आबादी। | 1466 |
| 08 | 08 | राजनगर में दाणी चबूतरा पर श्री चन्द्रकान्त जी लढढा की दुकान से शुरू होकर दक्षिण में मुडकर रोड-रोड पर बायी तरफ की आबादी (पूर्व दिशा की) लेते हुए श्री प्रफूल्ल बडौला के मकान तक। यहां से पूर्व में मुडकर गली गली बसन्त लाल जी देवपुरा के मकान को लेते हुए रूकमा बाई सेन के मकान को लेते हुए कमलेश जी सुथार के मकान तक। यहां से दक्षिण में नाईयों की कुई चौक लेते हुए श्रीमती तारा सेन का मकान लेकर बद्रीलाल जी सोमानी के मकान तक। यहां से दक्षिण पूर्व में मुडकर विश्वकर्मा जी मंदिर को लेते हुए मालीवाडा चौक मे पेमा जी माली के मकान तक। यहां से उत्तर में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए पठानवाडी की गली गली पठानवाडी चौक लेते हुए मज्जिद लेते हुए सीधे राजनगर मेन रोड पर मसरअल्लाजी के मकान तक। यहां से पश्चिम मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए पुनः दाणी चबूतरा पर श्री चन्द्रकान्त लढढा जी की दुकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1363 |
| 09 | 09 | नायकवाडी मे पीर खांजी (पिंजारा) के मकान से शुरू होकर दक्षिण मे चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए शिवलाल जी पालीवाल के मकान को लेते हुए, गोरजा माता मंदिर, नायकवाडी दरगाह लेते हुए माणक चोक तक। यहा से पूर्व में मुडकर सब्जी मण्डी को लेते हुए खाखलदेव तिराहा तक। यहा से उत्तर मुडकर लालजी भोई का मकान लेते हुए चारभुजा मंदिर लेते हुए मालीवाडा मे बद्रीलाल जी माली के मकान तक। यहा से पश्चिम मे मुडकर मालीवाडा चौक होकर शिव मंदिर को लेते हुए शान्तीलाल जी जैन के मकान को लेते हुए सोहनी बाई नाई के मकान तक। यहां से रोड क्रोस कर उत्तर की ओर मुडकर अर्जूनजी लढढा के मकान को लेते हुए उत्तर मे मुडकर नाईयो की कुई के सामने वाली आबादी लेते हुए अम्बालालजी माहेश्वरी के मकान तक। यहा से पश्चिम मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए पुनः पीर खा जी पिंजारा के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1407 |

| | | | |
|----|----|---|------|
| 10 | 10 | <p>सिलावट वाडी -पठान वाडी गली पर मीट की दुकान (कादरी चिकन शॉप) से आरम्भ कर दक्षिणी तरफ मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए पठानवाडी रोड रोड मालीवाडा चौराहे पर घासी जी के मकान तक। यहा से पुर्व मे मुडकर जगदीश किराणा की दूकान तक। यहा से दक्षिण मुडकर रतनलाल जी भोई के मकान व दूकान (खाखलदेवी जी के पास) तक। यहां से धाभाई जी के मकानो को लेते हुए सीधे खाखलदेव चौराहा होते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए सीधे शितला माता चौक में नारायण जी रेगर के मकान तक। यहा से उत्तर में मुडकर रेगर बस्ती रोड रोड बाये हाथ की आबादी लेते हुए मानजी रेगर के मकान तक। यहा से पुर्व में मुडकर रेगर बस्ती रोड क्रोसकर गोपीलाल जी रेगर के मकान को लेते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए चामुण्डा माता मन्दिर तक। यहा से पुर्व में मुडकर गली गली बाये हाथ की आबादी लेते हुए भंवरजी का मकान लेते हुए रामदेव जी पगल्या के सामने तक। यहा से उत्तर में मुडकर रास्ते रास्ते बाये हाथ की आबादी लेते हुए गोरा जी बावजी का मन्दिर लेते हुए सीधे राजनगर कांकरोली मेनरोड तक। यहा से पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए लक्ष्मण जी सेवानिवृत अध्यापक के मकान को लेते हुए मेन रोड रोड कलालवाटी चौराहा एवं नौचोकी चौराहा होते हुए पुनः सीधे सिलावट वाडी -पठानवाडी गली की मीट की दूकान (कादरी चिकन शॉप) तक। इसके बीच की समस्त आबादी।</p> | 1639 |
| 11 | 11 | <p>राजनगर कांकरोली मेनरोड पर गोराजी बावजी मन्दिर के पास हेन्डपम्प से आरम्भ कर दक्षिण की तरफ चलते हुए बायें हाथ की आबादी लेते हुए बालकृष्ण जी के मकान को लेते हुए गोराजी बावजी के मन्दिर को छोडते हुए पनघट के पास रामदेव जी के पगलियां तक यहां से पश्चिम में मुडकर गली-गली बाये हाथ की आबादी लेते हुए शंकरजी रेगर के मकान को लेते हुए चामुण्डा माता चौक तक। यहां से उत्तर में मुडकर बायें हाथ की आबादी को लेते हुए चामुण्डा माता मन्दिर को छोडते हुए गली-गली रूपलालजी के मकान को लेते हुए रेगर बस्ती रोड पर पोखर लाल जी रेगर के मकान तक यहां से दक्षिण में मुडकर रोड-रोड बायें हाथ की आबादी को लेते हुए सीधे 100 फीट रोड तक। यहां से पूरब में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए कलेक्ट्रेट परिसर को लेते हुए कलेक्टर आवास को लेते हुए सीधे सिविल लाईन्स रोड तक। यहा से उत्तर मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए टांक भवन राजनगर मेन रोड तक। यहां से पश्चिम में मुडकर बायी तरफ की आबादी लेते हुए पुरानी कलेक्ट्री भवन, यशवन्त छात्रावास भवन को लेते हुए पुनः राजनगर कांकरोली</p> | 1575 |

| | | | |
|----|----|---|------|
| | | मेन रोड पर गोरजी बावजी मन्दिर के पास हेण्डपम्प तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | |
| 12 | 12 | कांकरोली से राजनगर जाने वाले मुख्यमार्ग से सिविल लाईन्स मे जाने वाले मार्ग पर बायी तरफ प्रशान्त पैलेस भवन से आरम्भ कर दक्षिण दिशा में चलते हुए मांगीलाल जी माली के रिक्त प्लोट को लेते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए सीधा 100 फीट रोड तक। यहां से पूरब में मुडकर 100 फीट रोड रोड बाये हाथ की आबादी लेते हुए सीधे कमलेशजी पालीवाल के मकान गोकुल डेयरी तक। यहां से उत्तर में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए सुरभि कोम्पलेक्स को लेकर राजसिंह सर्किल (जलचक्की चौराहा) पर आईसीआईसीआई बैंक बिल्डिंग तक। यहां से पश्चिम में मुडकर गौरी कुन्ज को लेकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए पुनः सीधे प्रशान्त पैलेस भवन तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1684 |
| 13 | 13 | राजसिंह सर्किल (जलचक्की चौराहे) पर आईसीआईसीआई बैंक के सामने पुराने बन्द पेट्रोल पम्प से शुरू होकर टीवीएस चौराहे की ओर चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए शर्मा होस्पिटल को लेते हुए टीवीएस चौराहे के उत्तर पूर्वी कोने पर खुशबु मार्केट (श्री कमलेश हिंगड के कोम्पलेक्स) तक। यहां से पूर्व में मुडकर 50 फीट रोड रोड बाये हाथ की आबादी लेते हुए मनोहर होस्पिटल को लेते हुए सीधे नई 60 फीट रोड तक। यहां से उत्तर दिशा में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए राडाजी बावजी को लेते हुए लंगोट चौराहे को लेते हुए सीधे रोड रोड जे के मोड तक। यहां से पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए बस स्टेण्ड कांकरोली, नामदेव मंदिर को लेते हुए पुनः राजसिंह सर्किल(जलचक्की चौराहे) पर आईसीआईसीआई बैंक के सामने पुराने बन्द पेट्रोल पम्प तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1643 |
| 14 | 14 | जेके मोड से आरम्भ कर दक्षिण में चलते हुए बायें हाथ की आबादी लेते हुए लंगोट चौराहा के सामने की आबादी लेते हुए सीधे नई 60 फीट रोड होकर 50 फिट रोड तक। यहां से पूर्व में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए प्रजा विहार रोड तक। यहां से उत्तर में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए प्रजा विहार को छोडते हुए स्टेशन रोड तक। यहां से दक्षिण पूर्व में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए स्टेशन रोड रोड कुमावत समाज रावली पाटिया को लेते हुए स्वास्तिक सिनेमा को लेते हुए सुरेश जी भाटी के मकान तक। यहां से उत्तर पूर्व में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए प्रकाश जी पालीवाल के मकान को लेते हुए परमानन्द जी सनाढ्य के मकान | 1601 |

| | | | |
|----|----|---|------|
| | | <p>तक। यहा से उत्तर पश्चिम मुडकर स्वास्तिक सिनेमा के पिछे रास्ते रास्ते बाये हाथ की आबादी लेते हुए उदयलाल जी के खेत तक। यहा से उत्तर में मुडकरबाये हाथ के मकान को लेते हुए रोशन जी ओड़ावाला के मकान को लेते हुए देवीलाल जी कुमावत के मकान को लेते हुए, हाथीनाडा चोक लेते हुए सीधे सीधे तुलसी वाटिका के कोने तक। यहा से उत्तर पश्चिम मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए छतरियों के सामने रामचन्द जी देवपुरा के मकान तक। यहा से पश्चिम मे मुडकर रोड रोड चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए पुनः जेके मोड तक। इसके बीच की समस्त आबादी।</p> | |
| 15 | 15 | <p>छतरियों के उत्तरी पश्चिमी कोने से शुरू होकर दक्षिणी तरफ चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए बंशीलाल छीपा (चक्की वाला)के मकान तक। यहा से दक्षिण पश्चिम मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए रा.उ.प्रा.वि.कांकरोली हाथीनाडा को लेते हुए, प्रकाश शिसोदिया के मकान,हर्ष विला को लेते हुए कालिन्दी विहार में पुरुषोत्तम लखारा के खाली प्लाट तक। यहा से दक्षिण पूर्व में मुडकर स्वास्तिक सिनेमा के पिछे वाले रास्ते रास्ते बाये हाथ की आबादी लेते हुए महेन्द्र जी सुराणा के मकान को लेते हुए बृजेश जी सनाढ्य के मकान तक। यहा से उत्तर मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए शिव मंदिर, रतनलाल श्रीश्रीमाल के मकान को लेते हुए डॉ. भुरालाल सोनी के मकान तक। यहा से पश्चिम में मुडकर सुन्दरलाल जी कुमावत के मकान वाली रोड तक। यहा से पुनः उत्तर मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए सौनी टैन्ट हाउस के सामने भगवतीलाल जी कुमावत के खाली प्लोट तक। यहां से पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए भंवरविला तक। यहा से उत्तर में मुडकर रास्ते रास्ते बाये हाथ की आबादी को लेते हुए जयनारायण जी के खेत तक। यहा से पूर्व में मुडकर गणेश लाल जी श्रीमाली (उत्सव टेन्ट वाले का मकान) लेते हुए रोड रोड सीधे बसन्तीलाल सरूपिया के खेत तक। यहा से उत्तर में मुडकर हेण्डपम्प के पास हीरादास जी के मकान को लेते हुए मन्जु/सत्यनारायण जी छीपा के मकान तक। यहा से उत्तर में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए अनिल जी उपाध्याय के मकान को लेते हुए सुधीर जी पगारिया का मकान लेते हुए सडक सडक सीधा छापरिया ग्राउण्ड के सामने सडक तक। यहां से उत्तर पश्चिम में मुडकर सडक सडक चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए शारदा छात्रावास के सामने रोडीलाल जी सनाढ्य के खेत तक। यहा से पश्चिममे मुडकर रोडीलाल जी सनाढ्य के मकान को लेते हुए साबरिया भेरुजी के रास्ते रास्ते बाये हाथ की आबादी लेते हुए</p> | 1636 |

| | | | |
|----|----|---|------|
| | | साबरिया भेरुजी को लेते हुए सीधे नये अखाडे के दक्षिण पूर्वी कोने तक। यहा से अखाडे की दिवार-दिवार जयनारायण जी कुमावत के मकान को लेते हुए मदन खटीक के मकान तक। यहा से दक्षिण मे गली गली रतनलाल कुमावत के मकान तक। यहा से पश्चिम में मुडकर नहर नहर चलाते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए छतरिया के उत्तरी पूर्वी कोने मुख्य सडक तक। वहां से पश्चिम में मुडकर बाये हाथ मे छतरीयो को लेते हुए सडक सडक पुनः छतरियां के उत्तरी पश्चिमी कोने तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | |
| 16 | 16 | भीलवाडा रोड पर छतरीयो के पास फकीरचन्द नाई के मकान से आरम्भ कर पिछे की गली नहर नहर बायी तरफ मकानो को लेते हुए बशीर खां जी के मकान को लेते हुए हिना डेयरी को लेते हुए रतनलाल कुमावत के मकान तक। यहा से उत्तर गली में मुडकर गली गली किशनजी खटीक के मकान तक। वहा से पुर्व मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए अखाडेकी दिवार तक। वहा से अखाडे की दिवार के सहारे सहारे चलते हुए भंवरलाल कुमावत के मकान को लेते हुए सीधे साबरिया भेरुजी के सामने के मकान को लेते हुए शान्ती कोलोनी जाने वाली सडक तक। यहा से उत्तर मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए विवेकानन्द सर्किल तक। यहा से पश्चिम मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए मुखर्जी चौराहा होते हुए रोड रोड सीधे पुनः छतरीयो के चोक के पास फकीर चन्द्र नाई के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1647 |
| 17 | 17 | विवेकानन्द सर्किल के पास छगनलाल सुथार के मकान को लेते हुए दक्षिण रोड रोड कन्या हायर सैकण्ड्री स्कुल को लेते हुए वीरभान जी का खेडा नहर और रोड रोड बाये हाथ की आबादी को लेते हुए गंगाराम कुमावत के कुए को लेते हुए परसराम के मकान को लेते हुए नहर नहर सीधे भीलवाडा हाईवे पर सावरिया भोजनालय के सामने चतुर्भज जी के खेत तक। वहा से उत्तर मे मुडकर हाईवे हाईवे चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए शान्ती कोलोनी से हाईवे आने वाले रास्ते तक। वहां से पश्चिम मुडकर रोड रोड बाये हाथ की आबादी लेते हुए श्री शम्भू लाल के गोदाम व द्वार जी कुमावत के खेत को छोडते हुए चौराहे से उत्तर मुडकर आसोटिया आने वाले रोड रोड सीधे आसोटिया गोशाला के सामने चोक तक। वहां से पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए गोशाला को छोडते हुए सीधे गोशाला आखरिया लेते हुए चुल माता को लेते हुए पुनः सीधे विवेकानन्द सर्किल के पास छगनलाल सुथार के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1516 |
| 18 | 18 | हस्तीनापुर आबादी हुक्मीचन्द जी कुमावत के मकान से शुरू होकर | 1579 |

| | | | |
|----|----|---|------|
| | | <p>दक्षिण पश्चिम होकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, सोनी टेन्ट हाउस भवन को लेते हुए दक्षिण पूर्व मुड़कर पन्नालाल जी कुमावत, श्री हरी नाई, सुन्दरलाल जी का मकान लेते हुए भंवरजी कुमावत के मकान तक। यहा से पश्चिम में मुड़कर पुनः गली में दक्षिण मे मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेकर रजनीकान्त सनाढ्य के मकान को लेते हुए राधेश्याम जी आमेटा के मकान को लेते हुए सडक क्रोस कर रमाकान्त जी माथुर के मकान को लेते हुए स्वास्तिक टाकिज के पास वाली गली गली बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सीधे स्टेशन रोड तक। यहा से उत्तर पश्चिम मे मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सोहन जी पुर्बिया के बाडे तक। यहा से दक्षिण मे मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए प्रजा विहार को लेते हुए 50 फीट रोड तक। यहा से पूर्व मे मुड़कर 50 फीट रोड रोड चलते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए स्टेशन रोड तक। यहा से दक्षिण पुर्व में मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए पानी की टंकी को लेते हुए रोड रोड सीधा जे.के. सर्कल भीलवाडा हाईवे तक। यहा से उत्तर में मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सावरिया ढाबा के सामने ओमजी पगारीया के खेत तक। यहा से पश्चिम में मुड़कर नहर नहर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए छापरिया गाउण्ड के सामने मांगीलाल जी कुमावत के मकान तक। यहा से दक्षिण पश्चिम में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए नवल राम जी कुमावत का मकान लेते हुए शोभाजी शर्मा का मकान लेते हुए शान्तीलाल जी पालीवाल के मकान तक। यहा से पश्चिम में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए रामजी पालीवाल का मकान लेते हुए रोड रोड पुनः हुकमीचन्द जी कुमावत के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी।</p> | |
| 19 | 19 | <p>कमल तलाई रोड के सामने 50 फीट रोड से धोईन्दा जाने वाली सडक के कोने पर मनसुख राम माण्डोत के भुखण्ड से शुरू होकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए श्मशान को लेते हुए धोईन्दा जाने वाले रोड रोडकैलाश चौराहे पर पन्ना जी, बालुजी लोहार के मकान तक। यहा से पूर्व में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए श्री जयराम कुमावत का मकान लेते हुए हितेश भवन चम्पालाल कुमावत के मकान तक । यहा से पूर्व में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए रोड रोड उत्तर की तरफ तलाई के पास की आबादी लेते हुए सीधे तलाई (नये नाले) तक। वहा से दक्षिण मुड़कर तलाई को लेते हुए नाले नाले हाई स्कूल के सामने तक। वहा से पूर्व में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए कुमावत समाज के नोहरे को लेते हुए रोड रोड मण्डी के पिपल वृक्ष होकर भीलवाडा हाईवे तक।</p> | 1466 |

| | | | |
|----|----|--|------|
| | | वहा से पूर्व उत्तर मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए हाईवे हाईवे जे के सर्किल तक। यहा से पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए स्टेशन रोड रोड कांकरोली की तरफ चलते हुए पानी की टंकी के सामने 50' फीट रोड तक। यहा से पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए पुनः कमल तलाई रोड के सामने 50 फीट रोड से धोईन्दा जाने वाली सडक के कोने पर मनसुख राम माण्डोत के भुखण्ड तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | |
| 20 | 20 | टीवीएस चौराहे शोरूम के पास नवनिर्मित परमेश्वर पालीवाल के भवन से आरम्भ कर, टीवीएस शोरूम से नाथद्वारा रोड रोड बाये हाथ की आबादी लेते हुए धोईन्दा बस स्टेण्ड के सामने नृसिंह द्वार तक। यहां से पूर्व में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए धोईन्दा सदर रोड रोड जैन समाज के भवन, पटवार मण्डल को लेते हुए सीधे कैलाश चौराहा होते हुए खाकलदेव मंदिर को लेते हुए, धोईन्दा हाई स्कूल के उत्तरी पश्चिम कोने तक। यहां से उत्तर मुडकर बाये हाथ के मकानों को लेते हुए तलाई के नाले के पास बने हुए मकानां तक। यहा से पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए श्री नारायण लाल कुमावत (धनेरिया) के मकान को लेते हुए एवं उत्तर तरफ की आबादी छोडते हुए सीधे शान्तिलाल रेवाडिया (कुमावत) के मकान तक। यहा से दक्षिण पश्चिम मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए कैलाश चौराहे पर रामपाल लौहार के मकान तक। यहां से उत्तर मुडकर धोईन्दा से कमल तलाई आने वाले रोड रोड बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सीधे 50 फीट रोड तक। यहा से पश्चिम मुडकर बायी तरफ की आबादी लेते हुए पुनः सीधे टीवीएस चौराहे पर नवनिर्मित परमेश्वर पालीवाल के भवन तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1438 |
| 21 | 21 | धोईन्दा में सदर बाजार में श्री कन्हैयालाल जी लोढा के मकान से शुरू होकर वहा से दक्षिण मुडकर बडा चारभुजा मन्दिर को लेते हुए शंकरजी धनेरीया के मकान को लेते हुए, ढोलीयो के मकान, मांगीलाल जी पालीवाल के मकान को लेते हुए गाडरीयावास जानेवाले चार रास्ते तक। वहा से दक्षिण रोड रोड चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए वागरिया बस्ती, गायरीयावास बस्ती , देवडुगरी, भेरुजी मन्दिर को लेते हुए द्वारका नगर आवासीय योजना के उत्तर की तरफ प्रस्तावित 100 फीट रोड तक । वहा से दक्षिण पूर्व में मूडकर प्रस्तावित 100 फीट रोड रोड उत्तर तरफ देवडुगरी, गायरीयावास आबादी लेते हुए द्वारका नगर योजना ब्लोक ए व बी को छोडते हुए ब्लोक बी के 60 फीट रोड के मुहाने तक। वहा से | 1498 |

| | | | |
|----|----|---|------|
| | | उत्तर में गाडरीयावास में उत्तरने वाले रास्ते रास्ते राडाजी बावजी को छोड़ते हुए गायरी समाज के भवन को लेते हुए श्री शंकरजी गायरी के मकान तक। यहा से उत्तर पश्चिम में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए गायरीयावास में प्याउ के पास श्री परसराम जी के मकान तक। यहा से उत्तर पूर्व मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए धोईन्दा हाई स्कूल के उत्तरी पश्चिमी कोने के सामने हरीश जी तेली के मकान तक। वहा से पश्चिम मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए कैलाश चौराहा पर कायन हाउस भवन को लेते हुए पुनः धोईन्दा में सदर बाजार में श्री कन्हैयालाल जी लोढा के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | |
| 22 | 22 | धोईन्दा आम रोड पर श्री बृजलाल जोशी के मकान से शुरू कर दक्षिण रोड रोड बाये हाथ की आबादी लेते हुए चुन्नीलाल जी के मकान तक। यहा से पूर्व में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए रास्ते रास्ते हरीवल्लभ जी के मकान व विद्यालय को लेते हुए बुनकर मोहल्ला के पास केशुराम जी सालवी के मकान तक। यहा से उत्तर में मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए रास्ते रास्ते उदयराम जी सालवी, केशुराम जी सालवी के मकान को लेते हुए रोड रोड सालवी मोहल्ला के चबुतरे को लेते हुए धनेरीया गली होते हुए आमज माता मन्दिर को लेते हुए बडा चार भुजा मन्दिर चौक पर चारभुजा मन्दिर को छोड़ते हुए सदर बाजार रोड पर रामेश्वर लाल जी राव के मकान तक। यहा से पश्चिम मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए रोड रोड गणेश चौराहे को लेते हुए छोटे चारभुजा मंदिर धुंधलाज माता मन्दिर को लेते हुए पुनः बृजलाल जोशी के मकान तक। इसके बीच समस्त आबादी। | 1439 |
| 23 | 23 | धोईन्दा में नाथद्वारा रोड पर श्री देवीलाल पालीवाल के मकान से शुरू होकर दक्षिण में चलते हुए नाथद्वारा रोड रोड बाये हाथ की आबादी को लेते हुए जावद में रामचन्द्र पिता नवलराम पालीवाल के मकान तक। वहा से पूर्व मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए होलीथडा रोड रोड सीधे मेहता मगरी आबादी को लेते हुए छगनजी कुमावत के मकान तक। वहा से दक्षिण में मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए मांगुनाथ के मकान को लेते हुए, अम्बेडकर भवन के सामने वाली नई रोड रोड सीधे ब्रहकुमारी के आश्रम के सामने वाले मकान तक। यहा से दक्षिण पूर्व मुड़कर बाये हाथ के मकानों को लेते हुए अलोक विद्यालय की पीछे वाली रोड रोड सीधे धोईन्दा से शंकरपुरा जाने वाले रोड तक। वहा से उत्तर मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए गणेश जी लुहार के मकान को छोड़ते हुए हरीवल्लभ जी पालीवाल के मकान के सामने तक। यहा से | 1636 |

| | | | |
|----|----|--|------|
| | | पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए चुन्नीलाल जी पालीवाल के मकान को छोड़ते हुए गायत्री पब्लिक स्कूल को लेते हुए बंशीलाल जी सुथार के मकान तक। वहा से उत्तर मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए रोड रोड जगदीश जी पालीवाल (भूतपूर्व सभापति) के मकान को लेते हुए धोईन्दा के सदर रोड तक। वहा से पश्चिम मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए घासीलाल जी पालीवाल के मकान को लेते हुए नृसिंह द्वार से निकल कर पुनः नाथद्वारा आम रोड पर श्री देवीलाल जी पालीवाल के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी । | |
| 24 | 24 | जावद में नाथद्वारा रोड पर श्री नारायण लाल पिता माधवलाल जी पालीवाल के खाली प्लोट से शुरू होकर दक्षिण में नाथद्वारा रोड रोड बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सोमनाथ चौराहा होते हुए श्रीजी होस्पिटल को लेते हुए महेशनगर आबादी को लेते हुए चन्द्रदीप कोलोनी लेते हुए जावद पीपरडा की सीमा तक। यहा से पूर्व में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए कन्या छात्रावास कोलेते हुए परिषद सीमा सीमा शंकरपुरा के रास्ते तक। वहां से उत्तर मुडकर रास्ते रास्ते बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सालमपुरा की आबादी को लेते हुए भीलवाडा हाईव को पार कर धोईन्दा आने वाले रास्ते रास्ते अलोक विद्यालय तक। यहा से उत्तर पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए गणेश नगर आने वाले 60 फीट रोड रोड ब्रम्हकुमारी आश्रम तक। यहा से उत्तर पूर्व की ओर मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए नई रोड रोड नये अम्बेडकर भवन को लेते हुए रामजी गवारीया के मकान तक। यहा से पश्चिम मुडकर बायी तरफ की आबादी लेते हुए सीधे जावद में दशामाता चौक को लेते हुए पुनः नाथद्वारा रोड पर श्री नारायणलाल पिता माधवलाल जी पालीवाल के खाली प्लोट तक। इसके बीच समस्त आबादी। | 1620 |
| 25 | 25 | धोईन्दा देवडुंगरी भेरुजी के मन्दिर से दक्षिण में प्रस्तावित 100 फीट रोड एवं शंकर पुरा जाने वाले रास्ते के कोने से शुरू होकर दक्षिण में रोड रोड चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए द्वारीका नगर आवासीय योजना के ब्लोक ए, बी, व सी को लेते हुए सीधे आलोक स्कूल के स्टेडियम तक। वहा से दक्षिण पूर्व में मुडकर शंकरपुरा की सीमा सीमा बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सीधे द्वारका नगर की योजना में आने वाली 100 फीट रोड चौराहे तक। वहा पर देवेन्द्र सिंह जी राठौड के मकान, खेत जो शंकरपुरा में हैं, को छोड़ते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए कच्ची बस्ती, आयुर्वेदिक कार्यालय को लेते हुए सीधे भीलवाडा हाईवे तक। वहा से उत्तर पूर्व में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए खनिज | 1640 |

| | | | |
|----|----|--|------|
| | | विभाग कार्यालय, गोविन्द नगर आवासीय कोलोनी को लेते हुए पुलिया के पास जलदाय विभाग के गोदाम तक। यहा से उत्तर पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए हाउसिंग बोर्ड की रोड रोड सीधे डॉ मेघवाल के मकान को लेते हुए पश्चिम मे द्वारिका नगर की 100 फीट रोड रोड चितेश्वर महादेव मन्दिर को छोडते हुए ब्लोक बी हाउसिंग बोर्ड के भवनो को लेते हुए पुनः देवडुंगरी मन्दिर के दक्षिण की तरफ शंकरपुरा जानेवाली रोड तक । इसके बीच की समस्त आबादी। | |
| 26 | 26 | धोईन्दा हाई स्कूल के उत्तरी पश्चिमी कोने से आरम्भ कर दक्षिण पश्चिमी रोड रोड चलते हुए हाई स्कूल को लेते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सीधे गायरीयावास तिराहे तक। वहा से दक्षिण पुर्व मुडकर आरके होस्पिटल जाने वाले रोडरोड बाये हाथ की आबादी को लेते हुए गायरी समाज के भवन जाने वाले रोड तक। यहा से दक्षिण पश्चिम में मुडकर गायरी समाज के भवन को छोडते हुए राडाजी बावजी को लेते हुए द्वारिका नगर आवासीय योजना की 100 फीट रोड तक । यहा से दक्षिण पूर्व मे मुडकर द्वारिका नगर आवासीय योजना ब्लोक ए, बी, व सी को छोडते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए चित्तेश्वर महादेव को लेते हुए पानी की टंकी को लेते हुए गोविन्द नगर योजना की रोड रोड सीधे भीलवाडा हाईवे तक। यहा से पुलिया के निचे होकर पश्चिम में मुडकर आरके होस्पिटल कोर्नर शंकरपुरा की सीमा तक। यहा से दक्षिणपुर्व मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए चिकित्सक आवास को लेते हुए शंकरपुरा की सीमा सीमा रिको क्षेत्र को लेते हुए नोगामा की सीमा तक । यहा से नोगामा की सीमा सीमा जेके टायर फेक्ट्री को लेते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सिचाई विभाग की नहर तक। यहा से पश्चिम मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए नहर नहर भीलवाडा हाईवे तक। वहा से हाईवे क्रोस कर धोईन्दा आने वाले रास्ते रास्ते बाये हाथ की आबादी को लेते हुए पुनः धोईन्दा हाई स्कूल के उत्तरी पश्चिमी कोने तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1437 |
| 27 | 27 | भीलवाडा हाईवे पर नगरपरिषद सीमा पर ग्वालमगरी के कोने से शुरू होकर हाईवे के दक्षिण की तरफ चलते हुए बाई तरफ की आबादी को लेते हुए मोही रोड होते हुए जे के सर्किल होते हुए होटल रजवाडी को लेते हुए हाईवे के पास नहर तक। यहा से दक्षिण पूर्व में मुडकर एमडी की नहर के सहारे सहारे बाये हाथ की आबादी को लेते हुए रेल्वे लाईन पार कर शंकरसिंह जी के मकान तक। यहा से उत्तर मे मुडकर एमडी धोईन्दा की सीमा सीमा के सहारे चलते हुए | 1509 |

| | | | |
|----|----|--|------|
| | | बाये हाथ की आबादी को लेते हुए रायसिंह कोलोनी के मकानो को लेते हुए जिसमें रामसिंह का मकान (हेन्डपम्प के पास) लेते हुए रतनजी गायरी का मकान लेते हुए शेषमल जी का मकान को छोड़ते हुए रोड पार कर नारूजी के मकान को लेते हुए गली के अन्दर सोहन जी आरा मशीन वाले के मकान तक। यहा से दक्षिण पूर्व मे मुडकर तालेडी व रास्ते के सहारे सहारे चलते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए एमडी सीमा होते हुए वीरभानजी का खेडा की आबादी को लेते हुए केरोट के पास होकर केरोट के आबादी को छोड़ते हुए बाण्डीयावाला नाला क्रोस कर मोही रोड पर यात्री प्रतिकक्षालय तक। यहा से रोड क्रोस कर आसोटिया सीमा सीमा पेच की आबादी लेते हुए भेरूनाथ कोलोनी को लेते हुए आसोटिया की सीमा सीमा नाडी गाव की आबादी को छोड़ते हुए जयकिशन जी यादव के खेतो को लेते हुए ग्वाल मगरी भेरूजी के देवरे तक। यहा से पश्चिम मे मुडकर रेल्वे लाईन क्रोस कर पुनः भीलवाडा हाईवे तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | |
| 28 | 28 | भीलवाडा रोड पर निर्माणाधिन सनसिटी मॉल के पास गौतम नगर से आसोटिया में आने वाले रास्ते रास्ते दक्षिण की ओर चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए गोतम नगर, कच्ची बस्ती, आसोटिया श्मशान को लेते हुए सीधे आसोटिया गौशाला के सामने चौक तक। वहा से रोड क्रोस कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए आसोटिया बाग को लेते हुए शान्ती कोलोनी से भीलवाडा हाईवे आने वाले रास्ते तक। वहा से पूर्व में मुडकर द्वारजी कुमावत के खेत व शम्भूलाल कुमावत के गौदाम को लेते हुए सीधे भीलवाडा हाईवे तक। वहा से उत्तर मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए भीलवाडा हाईवेहाईवे सीधे आसोटिया तरसिगंडा की सीमा सबग्रिड स्टेशन के सामने तक। वहा से पश्चिम मुडकर आसोटिया तरसिगंडा की सीमा सीमा चलकर भीलवाडा रोड पर सुन्दरलाल जी कुमावत के टाईल्स गोदाम तक। वहा से पश्चिम मे मुडकर रोड रोड बाये हाथ की आबादी को लेते हुए बाण्डीयावाला नाला के पास पुनः भीलवाडा रोड पर निर्माणाधिन सनसिटी मॉल के पास गौतमनगर से सीधे आसोटिया मे आने वाले रास्ते तक। इसके बीच की समस्त आबादी इसमें शामिल हैं। | 1452 |
| 29 | 29 | भीलवाडा रोड विवेकानन्द सर्किल से शुरू होकर पूर्व मे चलते हुए आसोटिया रोड रोड बाये हाथ की आबादी लेते हुए देवल मगरी के पास की आबादी को लेते हुए सीधे आसोटिया गौशाला के दक्षिणी पूर्वी कोने तक। वहा से उत्तर मुडकर आसोटिया में गौशाला को लेते हुए बाये तरफ की आबादी लेते हुए रास्ते रास्ते नये स्कुल भवन को | 1699 |

| | | | |
|----|----|--|------|
| | | लेते हुए भीलवाडा रोड पर निर्माणाधीन सनसिटी मॉल तक। वहा से पश्चिम में मुडकर रोड रोड बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सुन्दर कोलोनी, कृषि मण्डी को लेते हुए प्राथमिक विद्यालय को लेते हुए पुनः भीलवाडा रोड विवेकानन्द सर्किल तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | |
| 30 | 30 | उना(अदब)की छतरी से आरम्भ कर राजसमन्द झील की पाल-पाल दक्षिण मे चलते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस तक। यहा से गेस्ट हाउस को छोडते हुए पुर्व मे मुडकर पाल से नीचे उतर कर गुडली रोड पर सिंचाई विभाग की पांणी की टंकी व कुआ छोडते हुए गुडली की सीमा सीमा फारुक खां के खेतो में बने हुए मकान को लेते हुए कन्या छात्रावास वाली रोड रोड कन्या छात्रावास तक। यहा से कन्या छात्रावास को छोडते हुए गार्डन (श्मशान के पिछे) तक। गार्डन के अन्दर होकर गेट से बाहर निकल कर शास्त्री नगर मे हेमराज जी पूर्बिया के मकान को लेते हुए राकेश जी गौड के मकान को लेते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए भीलवाडा रोड पर अमृत जी श्रीमाली के मकान तक। यहां से उत्तर पूर्व मे मुडकर भीलवाडा रोड रोड चलते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए पुलिस थाना कांकरोली लेते हुए आसोटिया बागपुरा सीमा पर सुरेशजी पालीवाल के मकान को लेते हुए परसराम लोहार के गेरिज तक। वहां से इन मकानों (आगे वाले) को लेते हुए पुनः आसोटिया बागपुरा सीमा तक। यहा से पुनः उत्तर पश्चिम मे मुडकर बागपुरा सीमा सीमा नगर परिषद की भूमि, राजेन्द्र जी सोनी की वाटिका लेते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए गुडली की सीमा सीमा बाण्डियावाला नाला तक। यहा से पश्चिम मे मुडकर गुडली की सीमा सीमा चलते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सीधे पुनः राजसमन्द झील की पाल पर उना (अदब)की छतरी तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1404 |
| 31 | 31 | सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस से आरम्भ कर दक्षिण की ओर राजसमन्द झील की पाल-पाल सिंचाई विभाग के ओफिस को लेकर गउघाट तक। वहां से पश्चिम में मुडकर बरगद के पास इन्द्रलालजी के मकान तक। यहां से इन्द्रलाल जी के मकान को छोडते हुए निचे उतर कर वाल्मिकी व्यायामशाला को लेते हुए भोलीराम का मकान लेते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए नवरतनजी के मकान तक। यहा से दक्षिण मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए सीढिया उतर कर मुन्नी देवी यादव के मकान तक। यहा से पश्चिम मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए मुखर्जी चौराहे पर बलवन्तसिंह जी के मकान तक। यहा से भीलवाडा रोड रोड पूर्व मे मुडकर बाये | 1400 |

| | | | |
|----|----|--|------|
| | | हाथ की आबादी को लेते हुए पोस्ट ऑफिस लेते हुए कृष्ण नगर, कमला नेहरू होस्पिटल लेते हुए सीधे सुन्दर कोलोनी के सामने श्री मुरलीधर जी जाट की दुकान तक । यहा से पश्चिम मुडकर गिरिराज जी मुदगल का (शास्त्रीनगर) मकान को लेते हुए शास्त्री नगर में बाये हाथ की आबादी लेते हुए सीधे कन्या छात्रावास के पिछे गार्डन मे होते हुए पिछे फाटक से गली में निकलकर कन्या छात्रावास को लेते हुए सीधे रोड रोड गुडली रोड क्रोस कर सिचाई विभाग के कुए को लेते हुए पुनः सिचाई विभाग के गेस्ट हाउस तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | |
| 32 | 32 | राजसमन्द झील की पाल पर परसराम जी दाधीच के मकान से आरम्भ कर यहा से दक्षिण में धोबी गली होते हुए बायी तरफ की आबादी लेते हुए रमेश जी दाधिच, गिरिराज जी गुर्जर के मकान को लेते हुए मंदिर मार्ग तक। यहां से पूर्व में मुडकर बायी तरफ की आबादी (बीएन कोलेज के सामने वाली आबादी) को लेते हुए सीधे सुरजपोल गेट अन्दर होकर शिव प्रसाद जी दाधिच के मकान तक। यहां से रोड क्रोस कर दक्षिण पश्चिम में मुडकर ईमली के पेड के पास रियो स्कुल को लेते हुए डॉ पगारिया जी के रिक्त भुखण्ड तक। यहा से दक्षिण मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए पेराडाईज इलेक्ट्रोनिकस दूकान मेन रोड तक। यहा से पूर्व में मुडकर रोड रोड बाये हाथ की आबादी को लेते हुए पगारिया नर्सिंग होम को लेते हुए मुखर्जी चौराहे से सिचाई विभाग रोड पर डॉ माधवलाल जी (सेवाभावी दांतो के क्लिनिक) को लेते हुए रोशनलाल धारू का मकान लेते हुए गली तक। यहां से उत्तर की ओर बस्ती मे जाने वाली गली मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए प्यार चन्द्र जी लोट के मकान को लेते हुए राम लाल जी कलोसिया के मकान को लेते हुए ईन्द्रलाल जी के मकान तक। यहा से पश्चिम मे मुडकर बाये तरफ की आबादी लेते हुए झील किनारे चलते हुए नरेन्द्र जी कच्छावा का मकान, पालेश्वर महादेव लेते हुए पुनः परसराम जी दाधीच के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1405 |
| 33 | 33 | बडे दरवाजा के पास कैलाश जी पिता माधवलाल जी के मकान (देवनारायण ज्वैलर्स) से आरम्भ कर पश्चिम में बोहरा बाजार रोड रोड चलते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए श्री गणेश लाल जी पगारीया के मकान तक। यहां से दक्षिण मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए ईमली वाले हनुमान जी को लेते हुए सीधा निशी प्लाजा रोशनलाल जैन के मकान को लेते हुए छोटूलाल जी सोनी (जैन) के मकान तक। यहा से रोड क्रोस कर पश्चिम मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए चोर्डिया मार्केट लेते हुए रामधुन गली | 1371 |

| | | | |
|----|----|---|------|
| | | <p>रोड रोड मांगीलाल जी छिपा की दूकान तक। यहा सँ दक्षिण में मुडकर राठासेन माताजी के मन्दिर तक। यहा से पूर्व मे मुडकर मेन रोड रोड बाये हाथ की आबादी को लेते हुए देवेन्द्र जी पालीवाल की दूकानो को लेते हुए सीधा बालकृष्ण स्टेडियम को लेते हुए बालाजी वाटिका लेते हुए ईण्डियन ओवरसीज बैंक वाली गली तक। यहा से उत्तर मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए डॉ पगारिया के कोम्पलेक्स तक। यहा से उत्तर पूर्व में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए गली गली इमली के पेड (मंदिर मार्ग) तक। यहा से सूरजपोल गेट अन्दर होकर बायी तरफ की आबादी को लेते हुए बी एन पी जी कन्या महाविद्यालय लेकर रेती मोहल्ला गिरिराज जी सनाढ्य के मकान को लेते हुए ज्ञान ज्योति माध्यमिक विद्यालय को लेते हुए पुनः बडे दरवाजे के पास कैलाश जी पिता माधवलाल जी के मकान (देवनारायण ज्वैलर्स) तक। इसके बीच की समस्त आबादी।</p> | |
| 34 | 34 | <p>पीपली चौतरा के पास प्रवीण कुमार जी सनाढ्य के मकान से आरम्भ कर इसके सामने लक्ष्मी नारायण जी पालीवाल के मकान को छोडते हुए वहा से दक्षिण मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए पीपली चौतरा होते हुए हुए विद्या विहार उ.प्रा. विद्यालय को लेते हुए अम्बालाल जी वारी के मकान को लेते हुए श्री धोरा वाला भेरूजी मंदिर को लेते हुए श्री जी ज्वैलर्स(बोहरा बाजार) तक। यहा से पूरब मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए बोम्बे मार्केट लेते हुए ओम जी शर्मा की कोने वाली दूकान तक। यहा से उत्तर मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए एडवोकेट बसन्तीलाल सरूपरिया के मकान को लेते हुए पूर्व मे मुडकर रेती मोहल्ला बाये हाथ की आबादी लेते हुए मन्दिर मार्ग तक। यहा से पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए धोबी गली तक। यहा से उत्तर मे मुडकर धोबी गली मे बाये हाथ की आबादी लेते हुए कृष्णकान्त जी गौरवा के मकान (पाल) तक। यहा से पश्चिम मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए, द्वारिकाधीश मन्दिर को लेते हुए, लाल बंगला, कबुतर खाना, जलगरीया घाट लेते हुए पुनः पीपली चौतरा के पास प्रवीण कुमार जी सनाढ्य के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी।</p> | 1364 |
| 35 | 35 | <p>चांदपोल के अन्दर श्याम जी पालीवाल के कोने वाले मकान (माणस माता जी मंदिर के पास) से आरम्भ कर दक्षिण मे गली मे चलते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए शोकत खां जी के मकान को लेते हुए नारायण जी चौहान के मकान को लेते हुए चांद मौहम्मद जी के मकान व पीछे बाडे को क्रोस करते हुए राडाजी बावजी को</p> | 1362 |

| | | | |
|----|----|--|------|
| | | लेकर हवेली की पूर्वी कोर कोर हवेली के दरवाजे के पास छीपा मोहल्ले में गोरवर्धन जी ब्राह्मण के मकान तक। यहा से पूर्व मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए गोपाल भवन, भगवती लाल जी छीपा का मकान लेते हुए मदनलाल जी छीपा (कोनेवाला भवन) के मकान तक। यहा से दक्षिण मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए मांगीलाल जी छीपा के सामने वाली दूकान तक। वहा से पूर्व मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए चोर्डिया मार्केट के सामने वाली दूकानो को लेते हुए छोटू लाल जी सोनी के सामने वाली कोने की दूकान तक। यहा से उत्तर मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए ईमली वाले हनुमान जी के मंदिर कोछोडते हुए सर्राफा बाजार मे शम्भूलाल जी सिसोदिया के मकान तक। वहा से पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए पुराना मालनिया चौक लेते हुए, लक्ष्मण जी गोस्वामी का मकान, भगवानदास जी सनाढ्य का मकान लेते हुए पुनः श्यामजी पालीवाल के मकान (माणस माता जी) तक। इसके बीच समस्त आबादी। | |
| 36 | 36 | माटा मोहल्ला मे खीदमत हुसैन जी के मकान से आरम्भ कर यहां से दक्षिण मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए छीपो का (चारभुजा) मन्दिर लेते हुए नूर मोहम्मद, सलीम मोहम्मद का मकान को लेते हुए भूरा जी बैरवा के मकान तक। यहां से निचे उतरते हुए बायी तरफ की आबादी लेते हुए चोदपोल चौक मे बोहराजी (उर्दु स्कुल) तक। यहा से सडक क्रोस कर सीढिया चढते हुए (बोहरो की मस्जिद के पिछे) के मकान को लेते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए देवीलाल जी गमेती के मकान को लेते हुए अनवर खां जी (कोने वाला) के मकान तक। यहा से पूर्व मुडकर गली गली बाये हाथ की आबादी को लेते हुए गोपी बाई सालवी का मकान लेते हुए माणस माता मन्दिर के सामने की आबादी लेते हुए मस्जिद तक। यहा से पूरब मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए चांदपोल रोड रोड पुरोहित भवन मण्डा की गवाडी लेते हुए मालनीया चोक मे श्रीया देवी मन्दिर लेते हुए रत्नम ज्वैलर्स तक। यहां से उत्तर मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए धोरा मोहल्ला रोड रोड होते हुए धोरावाल भेरूजी के सामने की आबादी लेते हुए भगवानदास जी का मकान लेते हुए पीपली चोतरा पर लक्ष्मी नारायण जी (कान्तासदन) के मकान तक। यहा से पश्चिम मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए झील के सहारे सहारे पुनः माटा मोहल्ला में खीदमत हुसैन जी के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1368 |
| 37 | 37 | संतोषी माता मंदिर के सामने दक्षिण मे आरम्भ कर बाये हाथ की | 1552 |

| | | | |
|----|----|---|------|
| | | <p>आबादी को लेते हुए पार्थ सारथी उ.प्रा.विद्यालय को लेते हुए शंकरलाल जी खटीक के मकान तक। यहा से रोड क्रोस कर पश्चिम में चलते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए मनोहर लाल खटीक के मकान को लेते हुए आजाद नगर मोहल्ले मे न्याज मोहम्मद शोरगर के मकान को लेते हुए अब्दुल रजाक के मकान को लेते हुए राजपुत टायर वाली पतली गली में राजू पिता शंकर जी बैरवा के मकान तक। यहा से उत्तर मे मुडकर गली से बाहर निकल कर चोमूखा महादेव मंदिर रोड पर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए मांगी लाल अहीर के मकान तक। यहा से चौमुखा महादेव मंदिर रोड पर पश्चिम में चलकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए किशनजी सोनी के मकान तक। यहा से दक्षिण मे मुडकर चौमुखा मन्दिर को छोडते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए अम्बालाल जी रेगर के मकान (कोने पर) तक। यहां से सीधा जलचक्की चौराहे तक। यहा से पूर्व मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए पालीवाल मार्केट को लेते हुए राठासेन माताजी के पहले वाले रास्ते तक। यहा से उत्तर मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए छीपा मोहल्ला में मदन लाल जी छीपा के सामने वाले मकान तक। वहा से पश्चिम में मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए छीपा मोहल्ला होते हुए हवेली के दरवाजे तक। वहां से उत्तर मे मुडकर हवेली के कोट कोट चलकर राडाजी बावजी होते हुए लादू लाल जी मास्टर साहब का मकान लेते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए आमज माता मंदिर लेते हुए भूरा जी गमेती, मरेला मोहल्ला को लेते हुए रामदेव जी मंदिर लेते हुए सिढियो के पास छोटू मोहम्मद जी के मकान (चांदपोल चोक) तक । यहां से पश्चिम में मुडकर चांदपोल गेट क्रोस कर बायेहाथ आबादी लेते हुए बोहरो का जमात खान लेते हुए संतोषी माता मंदिर चोक तक। इसके बीच की समस्त आबादी इसमे शामिल हैं।</p> | |
| 38 | 38 | <p>झील किनारे ईदगाह के सामने से शुरू होकर दक्षिण मे सलुस रोड चलते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए हुसैन भाई के मकान के पहले तुलसी साधना शिखर जाने वाले रास्ते के सामने गली तक। यहां से पूर्व में मुडकर दोनों कब्रिस्तान के बीच से होकर कब्रिस्तान के कोर्नर तक। यहां से दक्षिण मे मुडकर सिढिया चढते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए आजाद भाई का मकान (दाना मगरी) अमोध जी भटनागर का मकान लेते हुए नूर मोहम्मद जी का मकान तक। यहां से पूर्व मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए जावेद भाई के मकान को लेते हुए नीम वाले चोक तक। यहां से पूरब मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए मांगीलाल जी</p> | 1512 |

| | | | |
|----|----|--|------|
| | | <p>गमेती का मकान लेते हुए मांगीबाई चौहान के मकान तक। यहां से दक्षिण में मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए मदन जी भील के मकान (पीपल तक) तक। यहां से पूरब में मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए मनमोहन जी पालीवाल के मकान तक। यहां से उत्तर में मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए हजारी लाल जी पालीवाल के मकान को लेते हुए आरिफ हुसैन रंगरेज के मकान(चांदपोल) को लेते हुए चांदपोल दरवाजे में घुसकर पप्पू उस्ताद का बन्द मकान के पास गली में उत्तर पूर्व मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए कजोड जी के मकान को लेते हुए मुनव्वर जी बोहरा के मकान को लेते हुए शब्बीर मोहम्मद जी का मकान लेते हुए छीपा मंदिर के सामने की आबादी लेते हुए फतह मोहम्मद जी के कोने वाले मकान को लेते हुए मोहम्मद युसूफ मास्टर जी के मकान झील किनारे तक। यहां से पश्चिम की ओर चलते हुए झील किनारे होते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए श्मशान को लेते हुए पुनः झील किनारे ईदगाह के सामने तक। इसके बीच की समस्त आबादी।</p> | |
| 39 | 39 | <p>सलूस रोड पर तुलसी साधना शिखर की ओर जाने वाले रोड के सामने कब्रिस्तान जाने वाले रोड के कोने पर हुसैन भाई के मकान से आरम्भ कर दक्षिण में सलूस रोड रोड बाये हाथ की आबादी लेते हुए सीधे में रोड राजनगर-कांकरोली तक। यहां से पूर्व में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए कुरबान हुसैन पेट्रोल पम्प तक। यहां से उत्तर पश्चिम में मुड़कर रास्ते रास्ते बाये हाथ की आबादी लेते हुए देवीलाल जी माली के मकान को लेते हुए भगवती लाल जी के मकान तक। यहां से पूर्व में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए प्यार जी जटिया के मकान तक। यहां से दक्षिण में गली में मुड़कर गली गली बाये हाथ की आबादी लेते हुए गुलाब नबी जी का मकान लेते हुए फकीर मोहम्मद जी (आजाद नगर) का मकान लेते हुए कोने पर हेण्डपम्प के पास रमेश जी खटीक के मकान तक। यहां से उत्तर में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए शीतला माता मंदिर लेते हुए कोने पर हेण्डपम्प के पास वाले रहीम बक्षजी के मकान तक। यहां से पश्चिम में मुड़कर पीपल के पेड के पास से उत्तर में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए (भील मगरी) असलम भाई का मकान लेते हुए पीपलाज माता मंदिर को लेते हुए नीम के पेड तक। यहां से पश्चिम में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए हुसैन भाई की दूकान लेते हुए गली गली रामदेवजी के मंदिर तक। यहां से उत्तर में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए डालचन्द्र जी गमेती के कोने वाले मकान को लेते हुए रोड क्रॉस कर ओम प्रकाश जी</p> | 1409 |

| | | | |
|----|----|--|------|
| | | पालीवाल दाना मगरी के मकान को लेते हुए सिढिया उत्तर कर कब्रिस्तान के बीच की रोड तक। यहां से पश्चिम में मुड़कर दोनो कब्रिस्तानो के बीच होते हुए पुनः हुसैन भाई के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | |
| 40 | 40 | राजनगर-कांकरोली मुख्य मार्ग पर क्रय विक्रय सहकारी समिति वाली गली के कोने वाले मकान श्री नारायण जी खटीक के मकान से आरम्भ कर पूर्व में चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए ऐवीवीएनएल, आवरी माता मंदिर, पीर बावजी, ओबीसी बैंक को लेते हुए गेहरीलाल जी पालीवाल के मकान तक। यहां से उत्तर में मुड़कर सुलूस रोड पर बाये हाथ आबादी लेते हुए ईदगाह मस्जिद होकर झील किनारे तक। यहां से पश्चिम में मुड़कर बाये हाथ के तुलसी साधना शिखर केन्द्र, सर्किट हाउस, जलदाय विभाग पम्प हाउस को लेते हुए दक्षिण में मुड़कर एलआईसी ऑफिस के पास भंवर पालीवाल (प्रेमविला) के मकान को लेते हुए भवरजी जोशी के मकान तक। यहां से पश्चिम में मुड़कर बाये तरफ की आबादी लेते हुए अर्जुन लाल जी कावडिया के मकान तक। यहां से दक्षिण में मुड़कर गली में बाये तरफ की आबादी को लेते हुए क्रय विक्रय सहकारी समिति को लेते हुए पुनः नारायण लाल जी खटीक के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1539 |
| 41 | 41 | राजनगर रोड पर श्री सुनील/गणेश जी पालीवाल के मकान जिसमें सहकारी उपभोक्ता भण्डार संचालित है, से शुरू कर कांकरोली रोड पर पूर्व में चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए नगरपरिषद कार्यालय, महारानी पेलेस होटल, गांधी सेवा सदन को लेते हुए क्रय विक्रय सहकारी समिति की गली के दक्षिणी पूर्वी कोने पर दिनेश जी खटीक के मकान तक। यहां से उत्तर में मुड़कर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए गोपाल कृष्ण जी के मकान को लेते हुए बीएसएनएल कार्यालय तक। यहां से पूर्व में मुड़कर बाये हाथ की आबादी लेते हुए एलआईसी कार्यालय तक। यहां से उत्तर मुड़कर मगरे मगरे चलते हुए दयाल शाल किला शामिल कर पश्चिम में मुड़कर गायत्री स्कूल छोड़ते हुए नाले तक। यहां से दक्षिण में चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए गोपाल वैष्णव के मकान को लेते हुए करणीदान जी चारण के मकान तक। यहां से रोड क्रॉस कर प्रकाश पालीवाल (वैभव लक्ष्मी निवास) के मकान को लेते हुए इसके पास वाली गली में बायी तरफ की आबादी जिसमें काशी राम जी पालीवाल के मकान लेते हुए पुनः सुनील /गणेशजी पालीवाल के मकान(सहकारी उपभोक्ता भण्डार)तक। इसके बीच की समस्त आबादी। | 1573 |

| | | | |
|----|----|---|------|
| 42 | 42 | <p>हुसैनी चोक मे कब्रिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी कोने से आरम्भ कर पूर्वी तरफ कांकरोली रोड पर चलते हुए बाये हाथ की आबादी को लेते हुए कलालवाटी की उत्तरी आबादी, (अरविन्द स्टेडियम) को लेते हुए राजकीय चिकित्सालय को लेते हुए गायत्री बिटल्स पान की दूकान तक। यहां से उत्तर मे मुडकर गली गली बाये हाथ की आबादी को लेते हुए माहेश्वरी समाज की पथवारी लेते हुए देवकृष्ण जी, हनुमान मंदिर लेते हुए प्रकाश जी पालीवाल के मकान को छोडते हुए उत्तर मे मुडकर प्रेमसिंह जी का मकान, हीरासिंह जी के मकान को लेते हुए गायत्री स्कुल तक। यहां से मगरी मगरी किशोरनगर सरकारी स्कुल लेकर नोचोकी घेवरमाता जी मन्दिर तक। यहा से पश्चिम में मुडकर नोचोकी पाल को लेते हुए पीएचइडी कार्यालय के सामने तक। यहा से पीएचइडी कार्यालय को छोडते हुए दक्षिण मे मुडकर नोचोकी रोड रोड चलते हुए वन विभाग की दिवार के कोने तक। यहा से पश्चिम मे मुडकर बाये हाथ मे हुसैन भाई के मकान तक। यहा से दक्षिण मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए शफी मोहम्मद के मकान को लेते हुए रूस्तम खान जी के मकान व हलीमा मेन्सन को छोडते हुए मोईनुदिन जी के सामने वाले मकान तक। यहा से पुर्व मे मुडकर बाये हाथ की आबादी को लेते हुए मस्जिद को छोडते हुए नो चोकी रोड को क्रोस कर पुनः हुसैनी चौक में कब्रिस्तान तक। इसके बीच की समस्त आबादी।</p> | 1581 |
| 43 | 43 | <p>सदर बाजार कांकरोली रोड पर पुलिस क्वार्टर से आरम्भ कर पूर्व मे रोड रोड बाये तरफ की आबादी को लेते हुए ऐडवोकेट योगेश जी कावडिया का मकान, राजनगर पुलिस थाना लेते हुए मस्जिद तक। यहा से मस्जिद को लेते हुए उत्तर पश्चिम की ओर गली मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए मोईनुदिन जी पिता रहीम बक्ष जी के मकान तक। यहां से उत्तर मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए मोईनुदिन जी मास्टर सा. के मकान को लेते तक हुए हलीमा मेन्शन होकर रूस्तम खान जी के मकान को लेते हुए सडक क्रोस कर शफी मोहम्मद जी के मकान को छोडते हुए पूर्व की ओर पहाडी पहाडी चलते हुए वन विभाग की दिवार तक। यहा से पूर्व मे मुडकर नो चोकी रोड तक। यहा से उत्तर की ओर मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए पीएचइडी के कार्यालय को लेते हुए सेवाली सीमा तक। यहां से उत्तर मे चलते हुए शमशुदिन मंसुरी के मकान तक। यहा से दक्षिण मे मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए अब्दुल हकीम मंसुरी, सोहन जी यादव, रफीक भाई के मकान को लेते हुए नाथूलाल तबोली के मकान को लेते हुए पुनः पुलिस क्वार्टर तक। इसके बीच की समस्त आबादी।</p> | 1574 |

| | | | |
|----|----|---|------|
| 44 | 44 | <p>धोबी गली मेकन्या स्कुल के सामने भीमराज जी के मकान से आरम्भ कर दक्षिण की ओर चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए मगन जी खत्री के मकान को लेते हुए धोबी गली के कोर्नर पर देवीलाल साहु के मकान तक। यहां से पूर्व में मुडकर आम रोड पर सदर बाजार सडक सडक बाईं तरफ की आबादी लेते हुए दाणी चबुतरा के उत्तर की तरफ की आबादी लेते हुए सीधे देवीलाल जी कावडिया के बर्तन की दुकान तक। यहा से उत्तर में मुडकर यादव मोहल्ला जाने वाली गली गली बाये हाथ की आबादी लेते हुए सीधे श्री नन्द किशोर नन्दवाना के मकान तक। यहा से उत्तर में मुडकर प्रेमयादव के मकान को लेते हुए पहाड पर पश्चिम में मुडकर मगरी मगरी बाये हाथ की आबादी लेते हुए श्री दिपचन्द के मकान को लेते हुए बन्द पडे राजकीय विद्यालय को लेते हुए पश्चिम में मुडकर पुनः भीमराज जी के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी।</p> | 1525 |
| 45 | 45 | <p>एन एच 08 के पुलिया के निचे चिरंजीलाल जी खत्री के दूकान से आरम्भ कर पूर्व दिशा में चलते हुए बाये हाथ की आबादी लेते हुए फव्वारा चौक को लेते हुए सडक सडक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजनगर को लेते हुए धोबी गली देवनारायण किराणा स्टोर (देवीलाल जी साहु के मकान) तक। यहा से उत्तर दिशा में मुडकर गली में बाये हाथ की आबादी लेते हुए स्कुल के पिछे की बाउण्ड्री लेते हुए कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय के कोर्नर तक। यहा से पुर्व में मुडकर बाये हाथ की आबादी लेते हुए पुराने वार्ड संख्या 04 के राजकीय प्राथमिक विद्यालय तक। यहा से पुराने वार्ड संख्या 04 राजकीय प्राथमिक विद्यालय को छोडते हुए मगरे मगरे पुराना किला, रूठी रानी महल को लेते हुए सेवाली की सम्पूर्ण आबादी, रजा कोलोनी को लेते हुए ठाकुरगढ तक। यहां से पश्चिम में मुडकर पुराने चुंगी नाका एन एच 08 हाईवे तक। वहां से दक्षिण में मुडकर एन एच 08 के सहारे सहारे बायी तरफ की आबादी को लेते हुए होटल जलदर्शन को लेते हुए रजा कोलोनी को लेते हुए सब्जी मण्डी लेते हुए पुनः चिरंजीलाल जी खत्री के मकान तक। इसके बीच की समस्त आबादी।</p> | 1380 |

आयुक्त

नगर परिषद राजसमन्द

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।